



# डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

संख्या : लो०आ०वि०/ सम्ब०/ 2020/ 1760

दिनांक : ०१/०६/ 2020

सेवा में

१. प्र०० आर०एन०राय, विभाग—एम०बी०ए०, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विभिन्न, अयोध्या।
२. डॉ० प्रणय कुमार त्रिपाठी, विभाग—मनोविज्ञान, काठृसु० साकेत, पी०जी० कालेज, अयोध्या।
३. डॉ० विनोद कुमार सिंह, विभाग—भौतिकी, काठृसु० साकेत पी०जी० कालेज, अयोध्या।
४. डॉ० विक्का पाण्डेय, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगांज, अयोध्या।
५. डॉ० जै०पी० सिंह, प्राचार्य, राजकीय डिग्री कालेज, दर्शननगर, अयोध्या।

- आचार्य
- विशेषज्ञ सदस्य
- विशेषज्ञ सदस्य
- विशेषज्ञ सदस्य
- सदस्य/ सचिव

**विषय:**— श्री परमहंस शिक्षण प्रशिक्षण स्नातकोत्तर महाविद्यालय विद्याकुण्ड—अयोध्या को स्नातक/प्रासनातक स्तर पर कला/कृषि संकाय के अन्तर्गत मनोविज्ञान, एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रासनातक स्तर पर कृषि जैनोटिक्स एण्ड प्लाण्ट ब्रीडिंग, एनीमल हस्बैण्ट्री एण्ड डेयरिंग, एग्रीकल्चरल कैमेस्ट्री एण्ड स्वायत्त साइंस प्रासनातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तप्रेरित योजना के अन्तर्गत सत्र 2020-21 से सम्बद्धता (अस्थाई) प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

**महोदय/महोदया,**

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुरोधानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल के सदस्य महाविद्यालय के सम्पूर्ण निर्मित मनव के साथ अपनी फोटो खिचवायें, जिसे हस्ताक्षर सहित निरीक्षण आख्या में संलग्न किया जायेगा। सम्पूर्ण निरीक्षण की निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के साथ वीडियोग्राफी करायी जायें, जिसमें महाविद्यालय का पूर्ण घबन वहारदीवारी, गेट, शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला कक्षों (उपकरणों सहित) अनुग्रहित शिक्षकों एवं मानकानुसार वाचित अन्य अवस्थाएँ सुविद्याओं की रिकार्डिंग समिग्रित हों तथा निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ सम्पूर्ण निरीक्षण की दो री०डी० भी प्रेषित की जाए। (सूर्योर्धम के पश्चात किन्तु भी दशा में निरीक्षण कार्य न किया जाए)

**मिन बिन्दुओं पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है—**

१. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति के पंजीकरण एवं वैधता की तिथि।
२. महाविद्यालय की मानकानुसार मूर्मि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अकित होने से संबंधित खतौनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की रिथति।
३. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का संयुक्तता प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नवशा मूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की रिथति, महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अकित भूमि का विवरण गाटाओं एवं थोकफल सहित अकित किया जाए।
४. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं तिथि, अकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति जिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गाटाओं पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।
५. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवरिधि होने की रिथति में सदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की रिथति।
६. सोसायटी/द्रस्ट की वार्षिक आय का प्रगाण पत्र तथा संखा की विगत तीन वर्षों की सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेस सीट अन्यथा की रिथति में तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
७. मानकानुसार सोसायटी/महाविद्यालय के बचत खाते में अद्यतन जमा धनराशि।
८. मानकानुसार प्रमातृ धनराशि जमा होने की रिथति।
९. प्रबन्ध तंत्र के द्वारा आवेदन पत्र में अकित विवरण/प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित एवं सही है का ५० रुपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की रिथति।
१०. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यू०जी०सी० की धारा २४५ में पंजीकृत होने की रिथति।
११. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की रिथति तथा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
१२. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थाएँ सम्बद्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
  - k) महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अकित की जाय।
  - l) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शीघ्रालयों, पेशेजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्मित होने की रिथति।
  - m) फॉर्मर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की रिथति।
  - n) प्रयोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की रिथति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएँ, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की रिथति (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, बैंस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
  - o) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं भियुक्ति की संदिवा अवधि।
१३. याचितपात्रयक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य अवस्थाएँ सम्बद्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट रिथति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
  - a) महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अकित की जाय।



# डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

- b) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं सीटिंग कक्ष, शौचालय, पेयजल तथा चलारीवारी आदि के निर्मित होने की स्थिति।
- c) फौंचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की स्थिति।
- d) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की स्थिति (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
- e) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।
14. महाविद्यालय में कम्प्यूटर कक्ष, कम्प्यूटर उपकरण, छूटी०१०१०१०१०१०० आदि के साथ इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होने की स्थिति।
15. प्रबन्ध समिति के गठन व अनुमोदन की स्थिति।
16. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, चलारीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसंगठित होने का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के इस्टाक्शन उपलब्ध होने की स्थिति।
17. सामृद्धिक गक्कल का आरोप न होने की स्थिति(प्रमाण संलग्न करें)।
18. नियुक्त अनुमोदित प्राचार्य एवं अध्यापकों के बैतन मुग्गतान थैंक के द्वारा किये जाने की पुष्टि।
19. नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के अनुसार महाविद्यालय का भवन निर्मित होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग अथवा अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा का ही एवं अग्निशमन की मानकानुसार व्यवस्था होने के सम्बन्ध में अद्यावधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
20. निरीक्षक मण्डल के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शासनादेश के अनुरूप अण्डरटेकिंग निरीक्षण आख्या के अन्त में दी जायेगी।
21. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने हेतु की गयी स्पष्ट संस्कृति (स्थाई अथवा अस्थाई)।

उपरोक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता (स्थायी) के आवेदन की स्थिति में अनुमोदित प्राचार्य एवं शिक्षकों का सामृद्धिक हस्ताक्षरित छायाचित्र प्रबन्धक/सचिव के साथ तथा वीडियोग्राफी की सी०१०१० को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

रान्दमित महाविद्यालय की निरीक्षण आख्या शासनादेश संख्या 710/सत्तर-२-२०१४-१६(165)/2012टी०सी० दिनांक 14 नवम्बर 2014 के द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण के उपरान्त अधिकतम 03 कार्य दिवसों की अवधि में निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निरीक्षण न किये जाने की स्थिति में तत्सम्बन्धी आख्या/सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निरीक्षण हेतु निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सदस्यों के महाविद्यालय पहुंचकर निरीक्षण करने, महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण में सहयोग करने/सहयोग न करने/बाद में निरीक्षण का अनुरोध करने अथवा अन्य तथ्य/तथ्यों का स्पष्ट विवरण निरीक्षण आख्या में अंकित किया जायेगा। निरीक्षण सम्पन्न न हो पाने की स्थिति में भी निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण के लिए और अधिक समय मांगने के सम्बन्ध में लिखित राश्य निरीक्षक मण्डल द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके प्राथमिक पत्र पर निरीक्षक मण्डल द्वारा सहमति की दशा में आगामी स्थिति निर्विवत की जायेगी। शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2014 में निहित व्यवस्थानुसार सत्र का निर्धारण किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि समयान्तर्गत निरीक्षण का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्यों एवं समयान्तर्गत निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सचिव (हेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी अथवा नामित देत्र के राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य) का है। निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने की दशा में शासनादेश संख्या 968/सत्तर-६-२०१६-१००(18)/2016 दिनांक 12 मई 2016 के निर्देशानुसार निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समस्त व्यय जिसमें टी०१००/डी०१०० एवं अन्य व्यय सम्मिलित हैं का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा बहन किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल इस आशय का भी एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षक मण्डल के किसी सदस्य/सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अगान्य/नियमों के विपरीत कोई घनराशि नहीं ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अग्निलेख संलग्न कर) क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी/राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नोट-उल्लिखित बिन्दु संख्या 12 एवं 13 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल के द्वारा गम्भीरता से निरीक्षण कर पृथक-पृथक प्रविष्टि स्पष्ट रूप से स्वयं अंकित की जाये।

कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव सम्बन्धी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्मित आदेश/एडवाइजरी का पूर्णतः पालन करते हुए सुखात्मक उपायों के साथ निरीक्षण सम्पन्न किया जाएगा। यह निरीक्षण कोविड-19 के दृष्टिगत शासन/जिला प्रशासन के आवागमन शर्तों व अन्य प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

गवर्दीय,

उप-कुलसचिव

**प्रतिलिपि-१. प्रबन्धक/सचिव ( श्री परमहंस शिक्षण प्रशिक्षण स्नातकोत्तर महाविद्यालय विद्याकृष्ण-अयोध्या )** को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, निरीक्षण मण्डल को निरीक्षण में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में समर्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सन्दर्भित सूचना तिथि सहित 03 कार्य दिवसों की अवधि में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी शासन की एडवाइजरी का अनुपालन करते हुए सुखात्मक उपायों के साथ निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।

2. प्रोग्राम, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के लॉग-इन पर अपलोड करने का कष्ट करें।

*anji*  
उप-कुलसचिव